



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 11—सितम्बर 17, 2004 (भाद्रपद 20, 1926)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 11—SEPTEMBER 17, 2004 (BHADRA 20, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION IV]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
मुंबई, दिनांक 26 अगस्त 2004

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली 1946 के नियम 18 के अनुसरण जून 2004 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग 'क' में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग 'ख' में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
कोलकाता सर्कल 9.50% ऋण 2008					
सीए 000071	रु. 1,400/-	केनरा बैंक	निर्गम से अब तक कोई ब्याज भुगतान नहीं किया	दि साहाबाद इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स लि. प्रावीडेन्ट फंड ट्रस्ट, पटना	फाइल सं. आई-2551 महाप्रबंधक का दिनांक 06.04.04 का आदेश (एलसीओ सं. 154/03-04) दिनांक 06.04.04

1	2	3	4	5	6
11.50% ऋण 2015					
सीए 000290	रु. 700/-	केनरा बैंक	निर्गम से अब तक कोई ब्याज भुगतान नहीं किया	दि साहाबाद इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स लि. प्रावीडेन्ट फंड ट्रस्ट, पटना	फाइल सं. आई-2551 महाप्रबंधक का दिनांक 06.04.04 का आदेश (एलसीओ सं. 154/03-04) दिनांक 06.04.04
सीए 000311	रु. 5,800/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
सीए 000331	रु. 4,600/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
सीए 000291	रु. 3,300/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
कोलकाता सर्कल 10% ऋण 2014					
सीए 001988	रु. 5,000/-	केनरा बैंक	निर्गम से अब तक कोई ब्याज भुगतान नहीं किया	दि साहाबाद इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स लि. प्रावीडेन्ट फंड ट्रस्ट, पटना	फाइल सं. आई-2551 महाप्रबंधक का दिनांक 06.04.04 का आदेश (एलसीओ सं. 154/03-04) दिनांक 06.04.04
सीए 001992	रु. 4,100/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
11.50% ऋण 2015					
सीए 000960	रु. 25,000/-	केनरा बैंक	निर्गम से अब तक कोई ब्याज भुगतान नहीं किया	दि साहाबाद इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स लि. प्रावीडेन्ट फंड ट्रस्ट, पटना	फाइल सं. आई-2551 महाप्रबंधक का दिनांक 06.04.04 का आदेश (एलसीओ सं. 154/03-04) दिनांक 06.04.04
10.50% ऋण 2014					
सीए 001168	रु. 35,000/-	केनरा बैंक	28.10.90 तक का ब्याज भुगतान किया गया	दि साहाबाद इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स लि. प्रावीडेन्ट फंड ट्रस्ट, पटना	फाइल सं. आई-2551 महाप्रबंधक का दिनांक 06.04.04 का आदेश (एलसीओ सं. 154/03-04) दिनांक 06.04.04
सीए 001169	रु. 35,000/-	-वही-	28.10.91 तक का ब्याज भुगतान किया गया	-वही-	-वही-
नई दिल्ली सर्कल 10% राहत पत्र, 1995					
डी. एच. 001740 जी.पी.(सी.)	रु. 4,50,000/-	संजय खुराना और मीता खुराना	जी.पी. क्युमलेटिव होने के कारण कोई ब्याज बकाया नहीं है।	अनुज खुराना	पीडीओ/डीटी/एलएन-1/2004 दिनांक 5.5.2004
कोलकाता सर्कल 5 1/2% बैंक (अधिग्रहण एवं अंतरण) क्षतिपूर्ति बांड 1999					
सीए 005093 (जी पी, एन सी)	रु. 5,000/-	यूको बैंक	अर्ध वार्षिक ब्याज भुगतान (53) दिनांक 18.01.96 तक दिया गया	यूको बैंक	फाइल सं. आई-2552 महाप्रबंधक का दिनांक 10.6.2004 का आदेश-जायरी सं. एलसीओ 182/03-04 दिनांक 11.6.2004
भायखला, मुंबई सर्कल 10% राहत पत्र, 1995					
बी.सी. 3210 (जी.पी.एम.)	रु. 2,50,000/-	जगदीश द्वारकादास लालवानी नीतु जगदीश लालवानी (कोई एक अथवा उत्तरजीवी)	26/5/1998	जगदीश द्वारकादास लालवानी नीतु जगदीश लालवानी (कोई एक अथवा उत्तरजीवी)	06.25.72 20.5.03

1	2	3	4	5	6
भायखला, मुंबई सर्कल					
9% राहत पत्र, 1999 (डीमेट)					
बी.सी.एन. 007664 (जी.पी.एच.)	रु. 25,000/-	काली बुरजोरजी मेहता फ्रेनी काली मेहता (मृत)	07/09/1999	काली बुरजोरजी मेहता फ्रेनी काली मेहता (मृत)	06.25.63 30.7.2002
बी.सी.एन. 007667 (जी.पी.एन.)	रु. 25,000/-	फ्रेनी काली मेहता (मृत) काली बुरजोरजी मेहता	07/09/1999	फ्रेनी काली मेहता (मृत) काली बुरजोरजी मेहता	-वही-
कानपुर सर्कल					
10% राहत पत्र 1993 (वचन पत्र संचयी)					
के. एन. 000071	रु. 1,00,000/-	रमेश चन्दर भाटिया एवं सरोज भाटिया	-	रमेश चन्दर भाटिया एवं सरोज भाटिया	उप महाप्रबंधक का दिनांक 30-04-04 का आदेश (डायरी सं आई आर. 2450/80 दिनांक 1.05.04)
कानपुर सर्कल					
10% राहत पत्र 1995 (वचन पत्र संचयी)					
के. एन. 0001065	रु. 10,00,000/-	नीलम मिश्रा	-	नीलम मिश्रा	महाप्रबंधक का आदेश दिनांक 10-05-04 (डायरी सं.आई. आर. 2488/80 दिनांक 10.05.04)
के. एन. 0001066	रु. 10,00,000/-	तदैव	-	-तदैव-	-तदैव-
के. एन. 0001137	रु. 10,00,000/-	नीलम मिश्रा एवं संजीव मिश्रा	-	नीलम मिश्रा एवं संजीव मिश्रा	-तदैव-
के. एन. 0001384	रु. 9,00,000/-	तदैव	-	-तदैव-	-तदैव-
के. एन. 0001067	रु. 10,00,000/-	मालती मिश्रा	-	मालती मिश्रा	-तदैव-
के. एन. 0001068	रु. 10,00,000/-	-तदैव-	-	मालती मिश्रा	-तदैव-
के. एन. 0001136	रु. 20,00,000/-	मालती मिश्रा एवं संजीव मिश्रा	-	मालती मिश्रा एवं संजीव मिश्रा	-तदैव-
के. एन. 0001244	रु. 6,00,000/-	-तदैव-	-	-तदैव-	-तदैव-

एस. एम. माने
प्रबंधक

आन्ध्रा बैंक
(प्रधान कार्यालय)

हैदराबाद, दिनांक 25 अगस्त 2004

सं. 666/20/आई.आर./182--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40)* की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्रा बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, आन्ध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1981 में संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम, बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ : (1) ये विनियम आन्ध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम 'सरकारी राजपत्र' में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. आन्ध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1981 में विनियम 17 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"17 अपील (1) अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में निर्धारित अपने ऊपर लगाए गए किसी भी दण्ड या विनियम 12 में उल्लिखित निलंबन आदेश के खिलाफ, आदेश मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

परंतु, यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है तो वह उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है।

(2) अपीलकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत की जाएगी जिसकी एक प्रति उस अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसने निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश दिया था, इस अपील में पूरी विवरण सामग्री एवं बहस के वे मुद्दे होंगे जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है परंतु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपने आप में पूर्ण होगी।

(3) निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाला प्राधिकारी, अपीलकर्ता से अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसे, अपनी टिप्पणियों और संबंधित रिकॉर्ड के साथ, अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाले प्राधिकारी से मामले पर टिप्पणियां एवं रिकार्ड प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या स्थगन आदेश/निष्कर्ष न्यायसंगत है या क्या दंड बहुत अधिक या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा, अपील प्राधिकारी दण्ड/निलंबन की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि करने, कमी करने या उसे अलग रखने का आदेश पारित कर सकता है या मामले को, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे गए निदेशों सहित, जिस अधिकारी ने दण्ड लगाया था उसके पास या किसी अन्य अधिकारी के पास भेज सकता है।

परंतु

(i) यदि बढ़ाया हुआ दण्ड, जो अपील प्राधिकारी लगाने हेतु प्रस्तावित करता है, विनियम 4 के खंड (च)(छ)(ज)(झ) और (ज) में उल्लिखित अनुसार, कोई बड़ा दण्ड है और विनियम 6 में दिए गए अनुसार मामले में पहले कोई जांच नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी निर्देश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार मामले की ऐसी जांच की जानी चाहिए और उसके पश्चात् जांच के रिकॉर्ड पर विचार-विमर्श करेगा तथा जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगा;

(ii) यदि अपील प्राधिकारी दण्ड बढ़ाने का निर्णय लेता है परंतु विनियम 6 में दिए गए अनुसार जांच पहले ही की जा चुकी है, तो अपील प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बढ़ाया हुआ दण्ड उस पर क्यों न लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उसका निपटान करेगा :

परंतु इस विनियम में उल्लिखित समय-सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से सम्बंधित हों और जहां अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध छोटी/बड़ी दण्ड कार्रवाई, मामले की जांच कर रही पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो या केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जैसा भी मामला हो, द्वारा की गई सिफारिशों पर आरंभ की गई हो।

(6) 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित मामलों की अपील प्राधिकारी द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और मामलों को निपटार न जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

एस.सूर्यनारायण
महा प्रबंधक (कार्मिक)

टिप्पणी: आन्ध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1981 में पहले किए गए संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1.	34	26.10.1990
2.	41	04.12.1990
3.	18	02.05.1998
4.	43	21.10.2000
5.	8	17.01.2001
6.	30	28.07.2001
7.	3	19.01.2002

शुद्धिपत्र

कार्पोरेशन बैंक

(भारत सरकार का उद्यम)

प्रधान कार्यालय

मंगलूर-575 001, दिनांक 19 अगस्त 2004

विषय : कार्पोरेशन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 का नियम 41 उप-नियम(6) में संशोधन

संदर्भ : भारत का साप्ताहिक राजपत्र, जून 5-जून 11, 2004 भाग-III-खण्ड 4 (पृष्ठ सं. 2787)

2(ख)(6) को

“(6) कोई आवेदक, जो अधिवर्षिता पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता के लिए प्राधिकृत है वह इन विनियमों के अधीन अपनी पेंशन का एक अंश संराशीकृत करने के लिए पात्र होगा।”

2(ख)(6) इस प्रकार पढ़ें

“(6) कोई आवेदक, जो अधिवर्षिता पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन या अनिवार्य सेवा निवृत्ति पेंशन या अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता के लिए प्राधिकृत है वह इन विनियमों के अधीन अपनी पेंशन का एक अंश संराशीकृत करने के लिए पात्र होगा।”

हस्ताक्षर :

नाम : श्री सुधाकर एन. भट्ट

पदनाम : उप महा प्रबंधक

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

बैंकिंग प्रभाग

(राष्ट्रीय आवास बैंक)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 2004

सं. रा. आ. बैंक विनियम/2004.--राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 55 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से और केन्द्र सरकार के परामर्श से, निदेशक मंडल, राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य विनियमन, 1988 में संशोधनार्थ एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य (संशोधन) विनियमावली, 2004 कहा जाएगा।

(2) ये 15 जनवरी, 2004 से लागू माने जाएंगे।

3. राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य विनियमन, 1988 के विनियम 7 में,—

क. उप.विनियम (1) में "1,000 रुपए" शब्दों और अंकों के संस्थान पर "5,000 रुपए" शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

ख. उप.विनियम (2) में "500 रुपए" शब्दों और अंकों के संस्थान पर "2,500 रुपए" शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(फाईल सं. एनएचबी/एलडी/एक्ट-003)

वी. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने अपने परिपत्र एफ. सं. 26/2/2000-बीओआई दिनांक 15 जनवरी, 2004 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडल में निदेशकों को निदेशक मंडल और समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए संदेय वर्तमान फीस की दरों को संशोधित करके क्रमशः 5,000/- रुपए एवं 2,500/- रुपए कर दिया है। कथित पुनरीक्षण को राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य विनियमन, 1988 का संशोधन 15 जनवरी, 2004 से प्रभावी बनाता है।

टिप्पणी : मुख्य विनियमावली भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 935(अ) दिनांक 8 अक्टूबर, 1988 में प्रकाशित हुई थी और का.आ. 1041(अ) दिनांक 29 अगस्त, 2003 में और सा.का.नि.(अ.), दिनांक 1 जुलाई, 2004 में संशोधित की गई थी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक

सं. के. भ. नि. आ. I(4)/2115/2004/जीजे.—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का (19)) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि	सहमति की तिथि
1.	जीजे/60067	मै. मेगराज नागरिक सहकारी बैंक लि.	01.11.03	01.11.03
2.	जीजे/29807	मै. क्यूनिटाईट्स टेक्नोलोजिस (इण्डिया) प्रा. लि.	27.01.03	27.01.03

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2004

सं. यू-16/53/02/चिकित्सा.2(गुजरात).—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियों प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.05.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा. आई. के. फारमर, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर 01.08.2004 से 31.7.2005 तक की अवधि के लिए उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन) अहमदाबाद द्वारा निर्धारित जमालपुर केन्द्र अहमदाबाद के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डा. (श्रीमती) सुभाष सिंह
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 24 अगस्त 2004

सं.एन-15/13/6/3/96/यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 जुलाई, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

"जिला मलपुरम के तिरूरअंगाडी तालुक के तेनल्ला तथा तिरूर तालुक में पेरूमन्ना और तिरूर के अधीन आने वाले क्षेत्र।"

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं.एन-15/13/6/1/98/यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 सितम्बर, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

"जिला कोषिकोड के कोयलांडी तालुक में चैमनचेरी के अधीन आने वाले क्षेत्र।"

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं.एन-15/13/1/9/2003/यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 जुलाई, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

"आन्ध्र प्रदेश राज्य के कर्नूल जिले के अदोनि मण्डल में स्थित सदापुरम, मंदागिरी, दिब्बनकल, गोनबावि, विरापुरम, संभगल्लु, बैचिगिरी, कपटि, बसापुरम, पर्वतापुरम तथा कोडिताय राजस्व गांव से संबंधित इलाके।"

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं.एन-15/13/14/2/2003/यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 जुलाई, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

"नामक्कल जिला में तिरुचेन्नोडे तालुक के मोलिपल्ली, उन्जने एवं इलनगर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राह।"

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION
Mumbai, the 26th August 2004

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 [as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990], the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended June 2004 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
Kolkata Circle 9.50% Loan 2008					
CA-000071	Rs. 1400/-	Canara Bank	No Interest paid since issue	The Sahabad Investment and Traders Ltd. Provident Fund Trust, Patna	File No. I-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 (LCO No. 154/03-04 dated 06.04.2004)
11.50% Loan 2015					
CA-000290	Rs. 700/-	Canara Bank	No Interest paid since issue	The Sahabad Investment and Traders Ltd. Provident Fund Trust, Patna	File No. I-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 (LCO No. 154/03-04 dated 06.04.2004)
CA 000311	Rs. 5,800/-	-do-	-do-	-do-	-do-
11.50% Loan 2015					
CA 000331	Rs. 4,600/-	Canara Bank	No interest paid since issue	The Sahabad Investment and Traders Ltd. Provident Fund Trust, Patna	File No. I-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 (LCO No. 154/03-04 dated 06.04.2004)
CA 000291	Rs. 3,300/-	-do-	-do-	-do-	-do-
10% Loan 2014					
CA 001988	Rs. 5000/-	Canara Bank	No interest paid since issue	The Sahabad Investment and Traders Ltd. Provident Fund Trust, Patna	File No. I-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 (LCO No. 154/03-04 dated 06.04.2004)
CA 001992	Rs. 4100/-	-do-	-do-	-do-	-do-
11.50% Loan 2015					
CA 000960	Rs. 25000/-	Canara Bank	No interest paid since issue	The Sahabad Investment and Traders Ltd. Provident Fund Trust, Patna	File No. I-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 (LCO No. 154/03-04 dated 06.04.2004)

1	2	3	4	5	6
Kolkata Circle 10.50% Loan 2014					
CA 001168	Rs. 35000/-	Canara Bank	Interest paid upto 28.10.90	The Sahabad Investment and Traders Ltd. Provident Fund Trust, Patna	File No. 1-2551 General Manager's Order dated 6.4.2004 (LCO No. 154/03-04 dated 06.04.2004)
CA 001169	Rs. 35000/-	-do-	Interest paid upto 28.10.91	-do-	-do-
List "B"					
New Delhi Circle 10% Relief Bond 1995					
DH-001740GP(C)	Rs. 4,50,000/-	Sanjay Khurana and Meeta Khurana	GP being Cumulative no interest due	Anuj Khurana	PDO/DT/LN. 1/2004 dated 5th May 2004
Kolkata Circle 5 1/2% Bank (Acquisition & Transfer) Compensation Bond 1999					
CA-005093 (GP. NC)	Rs. 5000/-	UCO Bank	Half yearly interest paid upto 18.01.96 (53rd instalment)	UCO Bank	File No. 1-2552 GM's Order dated 10.6.04 (LCO No. 182/03-04 dated 11.6.2004)
Byculla, Mumbai Circle 10% Relief Bond 1995					
BC-3210 (GPM)	Rs. 2,50,000/-	Jagdish Dwarkadas Lalwani Neetu Jagdish Lalwani (either or survivor)	26/5/1998	Jagdish Dwarkadas Lalwani Neetu Jagdish Lalwani (either or survivor)	06.25.72 20/5/03
9% Relief Bond 1999 (D)					
BCN 007664 (GPH)	Rs. 25,000/-	Kali Burjorji Mehta Freny Kali Mehta (Deceased)	07.09.1999	Kali Burjorji Mehta Freny Kali Mehta (Deceased)	06.25.63 30.7.2002
BCN 007667 (GPH)	Rs.25,000/-	Freney Kali Mehta (Deceased) Kali Burjorji Mehta	07.09.1999	Freney Kali Mehta (Deceased) Kali Burjorji Mehta	-do-
Kanpur Circle 10% Relief Bonds 1993 (GP. Cum)					
KN-000071	Rs. 1,00,000/-	Ramesh Chander Bhatia and Saroj Bhatia	-	Ramesh Chander Bhatia and Saroj Bhatia	DGM's Order dated 30.4.2004 (Dy. No. IR-2450/80 dated 1st May 2004)
10 % Relief Bonds 1995 (GP. Cum)					
KN-0001065	Rs. 10,00,000/-	Neelam Misra	-	Neelam Misra	GM's Order dated 10th May 2004 (Dy. No. IR-2488/80 dated 10.5.2004)
KN-0001066	Rs. 10,00,000/-	-do-	-	-do-	-do-
KN-0001137	Rs. 10,00,000/-	Neelam Misra and Sanjeev Misra	-	Neelam Misra and Sanjeev Misra	GM's Order dated 10th May, 2004 (Dy. No. IR-2488/80 dated 10.5.2004)
KN-0001384	Rs. 9,00,000/-	-do-	-	-do-	-do-
KN-0001067	Rs. 10,00,000/-	Malti Misra	-	Malti Misra	-do-
KN-0001068	Rs. 10,00,000/-	-do-	-	-do-	-do-
KN-0001136	Rs. 20,00,000/-	Malti Misra and Sanjeev Misra	-	Malti Misra and Sanjeev Misra	-do-
KN-0001244	Rs. 6,00,000/-	Malti Misra and Sanjeev Misra	-	Malti Misra and Sanjeev Misra	GM's Order dated 10th May, 2004 (Dy. No. IR-2488/80 dated 10.5.2004)

2-238-GI/a

ANDHRA BANK

HEAD OFFICE

Hyderabad, the 25th August 2004

No. 666/20/IR/182—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Andhra Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend further the Andhra Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1981, namely :—

1. Short title and commencement : (1) These Regulations may be called Andhra Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Andhra Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1981, for Regulation 17, the following Regulation shall be substituted, namely :—

"17 Appeal : (1) An Officer Employee may prefer an appeal to the Appellate Authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in Regulation 4 or against the order of suspension referred to in Regulation 12 :

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(2) The appeal shall be presented to the Appellate Authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate Authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal.

(4) The Appellate Authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against, consider whether the order of suspension/findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appellate Authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty/suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that :

- (i) If the enhanced penalty, which the Appellate authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of Regulation 4 and an inquiry as provided in Regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of Regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper;
- (ii) If the Appellate Authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in Regulation 6, the Appellate Authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.

- (5) The Appellate authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appellant :

Provided that the time limit specified in this Regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

- (6) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate Authority and reasons for non-disposal of the cases shall be recorded in writing.

S. SURYANARAYANA
General Manager (Personnel)

Foot Note : Earlier amendments to the Andhra Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1981 were published in the Gazette as per details given below :—

S. No.	Notification No.	Date
1	34	26.10.1990
2	41	04.12.1990
3	18	02.05.1998
4	43	21.10.2000
5	8	17.01.2001
6	30	28.07.2001
7	3	19.01.2002

CORPORATION BANK

(A Government of India Enterprise)

HEAD OFFICE

MANGALADEVI TEMPLE ROAD

Mangalore-575 001, the 19th August 2004

CORRIGENDUM

Sub : Amendment to Regulation 41, Sub Regulation (6) of Corporation Bank (Employees') Pension Regulations, 1995.

Ref : The Gazette of India Weekly, June 5—June 11, 2004—Part III—Section 4 (Page No. 2854).

For 2 (b) (6)

"(6) An applicant who is authorised a superannuation pension or voluntary retirement pension or compulsory retirement pension or invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations;"

Read 2(b) (6)

"(6) An applicant who is authorised a superannuation pension or voluntary retirement pension or **premature retirement pension** or compulsory retirement pension or invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations."

SRI SUDHAKAR N. BHAT
Deputy General Manager

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
(BANKING DIVISION)

(NATIONAL HOUSING BANK)

New Delhi, the 24th August 2004

No. NHB-Regulation/2004.—In exercise of the powers conferred by section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Board, with the previous approval of the Reserve Bank of India and in consultation with the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the National Housing Bank General Regulations, 1988, namely :—

- (1) These regulations may be called the National Housing Bank General (Amendment) Regulations, 2004.
- (2) They shall be deemed to have come into force on 15th January, 2004.
- In the National Housing Bank General Regulations, 1988, in regulation 7,—
 - (a) in sub-regulation (1), for the words and figures "Rs. 1,000", the words and figures "Rs. 5,000" shall be substituted;

(b) in sub-regulation (2), for the words and figures "Rs. 500", the words and figures "Rs. 2,500" shall be substituted.

[File No. NHB/LD/Act-003]

V. SRIDAR
Chairman and Managing Director

EXPLANATORY MEMORANDUM

Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) vide its circular F. No. 26/2/2000-B.O.I. dated 15th January, 2004 had revised the rates of sitting fee payable to the directors on the board of banks and financial institutions for attending the Board and Committee meetings to Rs. 5000/- and Rs. 2,500/- respectively. The amendment to the National Housing Bank General Regulations, 1998 is to give effect to the said revision with effect from 15th January, 2004.

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II section 3, sub-section (ii) vide S.O. 935 (E) dated 8th October, 1998 and amended vide S.O. 1041 (E) dated the 29th August, 2003, and GSR (E), dated the 1st July, 2004.

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(HEAD OFFICE)

New Delhi-66, the

No. CPFC. 1(4)/2115/2004/GJ—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely :

S. No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	GJ/60067	M/s. Meghraj Nagrik Sahakari Bank Ltd.	1-11-2003	31-10-2003
2.	GJ/29807	M/s. Quintiles Technologies (India) Pvt. Ltd.	27-1-2003	27-1-2003

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI
Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 3rd August 2004

No. U-16/53/02/Med.II(Guj.)—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. I.K. Parmar, PTMR to function as Medical Authority for Jamalpur Centre Ahmedabad for the period of one year from 1-8-2004 to 31-7-2005 for areas to be allocated by State Medical Commissioner Ahmedabad for the purpose of Medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

The 24th August 2004

No. N-15/13/6/3/96-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely.

"Areas comprising the revenue villages of Thennala in Tirurangadi Taluk; Perumanna and Tirur in Tirur Taluk in Mallappuram District."

R. C. SHARMA
Jt. Dir. (P&D)

No. N-15/13/6/3/98-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st Sept, 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely.

"Chemancherry in Quilandi Taluk in Kozhikode District."

R. C. SHARMA
Jt. Dir. (P&D)

No. N-15/13/1/9/2003-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely.

"All the areas falling within the limits of Revenue Villages of Sadapuram, Mandagiri, Dibbanakal, Gonabavi, Virapuram, Sambhagallu, Baichigiri, Kapati, Basapuram, Parvathapuram and Kodithota of Adoni Mandal in Kurnool District."

R. C. SHARMA
Jt. Dir. (P&D)

No. N-15/13/14/2/2003-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely.

"Areas comprising the revenue villages of Molipalli, Unjanai and Elanagar of Thiruchengode Taluk : Namakkal District."

R. C. SHARMA
Jt. Dir. (P&D)